



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, जुलाई 3—जुलाई 9, 2016, शनिवार/आषाढ़ 12—आषाढ़ 18, 1938
No. 19] NEW DELHI, JULY 3—JULY 9, 2016, SATURDAY/ASADHA 12—ASADHA 18, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश
नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

आ.व.44.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2014 में स्तम्भ (3) में अपने नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा यथाअपेक्षित, उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथाप्रदर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है: और

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त कारण या औचित्य नहीं है:

अतः अब निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्रम स.	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
1.	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2014	01— चांदनी चौक	नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, 62—सी, एम आई जी फ्लैट्स, शिवम् एन्क्लेव, दिल्ली—110092	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	—वही—	मौ. अफाक, 303 ए, बस्ती ख्याजा, मीर दर्द रोड़ टैगोर रोड़, बैरनरोड़, नई दिल्ली — 110002	—वही—
3.	—वही—	—वही—	संजय गांधी, हाउस नम्बर—सी—9/3, मॉडल टाउन—3, दिल्ली —110002	—वही—

[सं. 76/दिल्ली.-लो.स./2014(2)]

आदेश से,
के. एफ. विलफ्रेड, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ORDER

New Delhi, the 8th July, 2016

O.N. 44.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2014 held in NCT of Delhi, as specified in Column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under; as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

S. No.	Particulars of Election	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the House of the People- 2014.	01-Chandni Chowk	Narendra Kumar Pandey, 62-C, MIG, Flats, Shivam Enclave, Delhi-110092	Failure to lodge the accounts of election expenses.
2.	-do-	-do-	Md. Afaq, 303A, Basti Khwaja, Mir Dard Road, Tagore Road, Barron Road, New Delhi-110002	-do-
3.	-do-	-do-	Sanjay Gandhi, House No.C-9/3, Model Town – III, Delhi-110009	-do-

[No. 76/DL-HP/2014(2)]

By Order,

K.F. WILFRED, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

आ.अ.45.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि असम राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन 2014 में नीचे की सारणी में स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से आयोजित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त असफलता के लिए या तो कोई उपयुक्त कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है:—

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	असम राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014	07-गोहाटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	श्री बीजू फूकन, सिल्वर हाईट्स अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं० - ए 6, बशिष्ठपुर रोड, सर्वे, गोहाटी-781028, (असम)	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
2.	-वही	-वही-	श्री पदमेश्वर फूकन, जोरकाटा चामुआ गांव, थाना तथा जिला - धेमाजीमल दास, राणा प्रताप लेन, नेशनल हाईवे, डाकघर - विवेकानन्द रोड, थाना - सिल्वर, जिला - कछार पिन-788007 (असम)	निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे ।
3.	-वही-	-वही-	श्री प्रदीप कलिता, ग्राम-हेमाबाड़ी सातमरा, डाकघर - बोरांगटोली, थाना - सामागुड़ी, जिला - नगांव (असम) पिन-782141	-वही-

[सं. 76/असम.-लो.स./2014]

आदेश से,

नरेन्द्र एन. बुटोलिया, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2016

O.N.45.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2014, in the Assam State held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:

TABLE

SL. No.	Particulars of Election	No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Lok Sabha 2014 from the state of Assam.	07-Guwahati PC	Shri Biju Phukan, Silver Heights Apartment, Flate No.A6, Basisthapur Road, Survey, Guwahati-781028, Assam.	Failed to lodge accounts of election expenses in the manner required by law.
2.	-do-	-do-	Shri Padmeshwar Phukan, Jorkata Chamua Gaon, P.S. - & Distt. - Dhemaji	Failed to lodge accounts of election expenses.
3.	-do-	-do-	Shri Pradip Kalita, Vill.-Hemabari Satra, P.O. Borangatoli, P.S.-Samaguri, Distt.Nagaon(Assam), Pin-782141.	-do-

[No. 76/AS-HP/2014]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Secy.